



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

11 चैत्र 1944 (श10)  
(सं० पटना 167) पटना, शुक्रवार, 1 अप्रैल 2022

---

सं० 27 / आरोप-01-103 / 2021-4693 / सा0प्र0  
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प  
28 मार्च 2022

मो० सलाउद्दीन खाँ (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 268/11, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, गोपालगंज सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध निगरानी थाना कांड संख्या 090/2010 दिनांक 22.12.2010 के प्राथमिक अभियुक्त श्री भानुप्रताप चौहान, पंचायत सचिव के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की सम्यक् समीक्षा नहीं करने एवं विधि सम्मत प्रस्ताव समर्पित नहीं करने संबंधी आरोप के लिए जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक 179 दिनांक 13.03.2015 द्वारा आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराया गया।

उक्त आरोप के संदर्भ में मो० सलाउद्दीन के पत्रांक 1715 दिनांक 12.06.2015 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से विभागीय पत्रांक 9536 दिनांक-02.07.2015 द्वारा मंतव्य की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी के पत्रांक 600 दिनांक-05.08.2015 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया। मो० सलाउद्दीन के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, समर्पित स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए उनके विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4606 दिनांक 29.03.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी विभागीय जाँच आयुक्त (सम्प्रति मुख्य जाँच आयुक्त) के पत्रांक 347 दिनांक 01.08.2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए असहमति के बिन्दुओं को उल्लेखित कर विभागीय पत्रांक 14055 दिनांक 07.11.2017 द्वारा मो० खाँ से अभ्यावेदन/बचाव बयान की मांग की गयी। उक्त के आलोक में मो० खाँ के पत्र दिनांक 20.12.2017 द्वारा समर्पित अभ्यावेदन/बचाव बयान समर्पित किया गया।

मो० खाँ के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, समर्पित स्पष्टीकरण, प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा कारण पृच्छा के उत्तर के समीक्षोपरांत पाया गया है कि मो० खाँ द्वारा आरोपित पंचायत सचिव के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए दंड अधिरोपित करने हेतु प्रस्ताव दिया गया, लेकिन वरीय पदाधिकारी होने के नाते रिश्तत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने जैसे गंभीर आरोप के लिए संचालित विभागीय कार्यवाही की सम्यक्/गहन समीक्षा की जानी

चाहिए थी, जो इनके द्वारा नहीं की गयी। मो० खॉ को गहन समीक्षा करते हुए जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए पुनः जाँच करवाने अथवा असहमति के आधार पर आरोपी पंचायत सचिव से अभ्यावेदन प्राप्त कर वृहत् दंड (जिसमें सेवा से बर्खास्तगी भी शामिल है) का प्रस्ताव दिया जाना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं दिया गया। मो० खॉ द्वारा मात्र संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष के आधार पर ही प्रस्ताव दिया गया, आरोप की गम्भीरता को नहीं देखा गया, जिस कारण रिश्तत लेते रंगे हाथ पकड़े गये आरोपी पंचायत सचिव को लाभ प्राप्त हुआ।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में समीक्षोपरांत मो० खॉ द्वारा समर्पित अभ्यावेदन/बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के प्रावधानों के तहत "idku ls 5% ¼kp ifr'kr½ idku dh jkf'k dh 5 ¼kp½ o"kkā rd dVks'h" करने का दंड विनिश्चित किया गया।

विभागीय पत्रांक 3920 दिनांक 21.03.2018 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से मो० खॉ के विरुद्ध विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर सहमति/परामर्श की मांग की गई। आयोग के पत्रांक 2875 दिनांक 28.01.2019 द्वारा अपने परामर्श में बिना तार्किक तथ्य पेश किये प्रस्तावित दण्ड अधिक होने का अभिमत दिया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त असहमति के आलोक में मो० सलाउद्दीन खॉ (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 268/11, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, गोपालगंज सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3247 दिनांक-08.03.2019 द्वारा "idku ls 5% ¼kp ifr'kr½ idku dh jkf'k 5 ¼kp½ o"kkā rd dVks'h" करने का दंड संसूचित किया गया।

उक्त दण्डादेश के विरुद्ध आरोपी पदाधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या-21659/2019 दायर किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक-18.11.2021 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

The petitioner submitted his reply to the show cause notice on 20.12.2017 (Annexure P-15) in which he has raised various contentions. On receipt of the petitioner's explanation to the show cause notice the disciplinary authority proceeded to impose penalty of withholding of 5 % of the pension for a period of five years without considering each of the contention raised in the explanation to the show cause notice. Therefore, one has to draw inference that there is non application of mind in passing the impugned order of penalty dated 08.03.2019.

Accordingly, order dated 08.03.2019 is set aside reserving liberty to the disciplinary authority to pass a speaking order afresh after due consideration of each of the contention raised in the explanation dated 20.12.2017. The aforesaid exercise shall be completed within a period of three months from the date of receipt of this order. With the above observation, the writ petition stands disposed of.

अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में मो० खॉ द्वारा समर्पित कारण पृच्छा के उत्तर की विन्दुवार समीक्षा की गयी। सम्यक् विचारोपरांत मो० सलाउद्दीन खॉ (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 268/11, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, गोपालगंज सम्प्रति सेवानिवृत्त से प्राप्त स्पष्टीकरण के पुनः समीक्षोपरांत एवं उपरोक्त न्याय निर्णय के आलोक में आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध पूर्व में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के संगत प्रावधानों के तहत "idku ls 5% ¼kp ifr'kr½ idku dh jkf'k 5 ¼kp½ o"kkā rd dVks'h" की शास्ति को यथावत रखा जाता है।

vkns'k % vkns'k fn;k tkrk gsfed bl l dYi dh ifr fcgkj jkti = ds vxys vl k/kj.k vad ea idkf'kr fd;k tk; rFkk bl dh ifr l Hkh l af/krka dks lpuuk ,oa vko'; d dkjbbz ds fy, Hkst nh tk;

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
महेन्द्र कुमार,  
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 167-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>